

नामी कंपनी की नकली घड़ियां बेच रहे थे: जबलपुर पुलिस ने तीन दुकानों से 425 ब्रांडेड नाम की नकली घड़ियां जब्त की, ओमती में FIR

जबलपुर



ब्रांडेड कंपनियों की नकली घड़ी बेच रहे थे तीन दुकानदार।

जबलपुर में फास्ट्रैक कंपनी की नकली घड़ियां बेची जा रही थीं। 700 से 1500 रुपए की ब्रांडेड कंपनी की घड़ियों को यहां 700 से 1000 रुपए में बेचा जा रहा था। कंपनी के अफसर की शिकायत पर पुलिस ने तीन दुकानों पर छापा मारा। तीनों जगहों से 425 फास्ट्रैक कंपनी की नकली घड़ियां मिलीं। इनकी कीमत तीन लाख रुपए है। तीन दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज किया गया है।

जबलपुर में कंपनी को लगातार नकली घड़ी बेचने की जानकारी मिल रही थी। ये घड़ियां दिल्ली से बिकने आती थीं। ओमती टीआई एसपीएस बघेल ने बताया कि ईआइपीआर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी सावरिया इंदौर निवासी मयंक शर्मा ने नकली घड़ियों को लेकर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से शिकायत की थी। एसपी के निर्देश पर बुधवार देर रात तुलाराम चौक में पर्ल ट्रेडर्स, क्वालिटी वाच और जयमाता दी टाइम्स घड़ी नाम की दुकानों की तलाशी ली गई।



ओमती पुलिस ने की कार्रवाई, तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज।

तीनों दुकानों से 425 ब्रांडेड कंपनी की नकली घड़ी जब्त की

पर्ल ट्रेडर्स दुकान संचालक मुकेश चिमनानी के यहां से फास्ट्रैक कंपनी की हूबहू 237 घड़ियां, क्वालिटी वाच दुकान में संचालक रितेश कुमार सिंघानी के यहां से 114 और जय माता दी टाइम्स घड़ी दुकान के संचालक सुरेश जय सिंघानी के यहां से 74 नकली घड़ी जब्त की गई। आरोपियों के यहां से जब्त घड़ियों की कुल कीमत तीन लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। आरोपित नकली घड़ी 700 से 1000 रुपए के बीच में ग्राहकों को बेच रहे थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ कॉपराइट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच में लिया है।

Source: जबलपुर में फास्ट्रैक कंपनी की नकली घड़ियां बेची जा रही थीं। 700 से 1500 रुपए की ब्रांडेड कंपनी की घड़ियों को यहां 700 से 1000 रुपए में बेचा जा रहा था। कंपनी के अफसर की शिकायत पर पुलिस ने तीन दुकानों पर छापा मारा। तीनों जगहों से 425 फास्ट्रैक कंपनी की नकली घड़ियां मिलीं। इनकी कीमत तीन लाख रुपए है। तीन दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज किया गया है।

जबलपुर में कंपनी को लगातार नकली घड़ी बेचने की जानकारी मिल रही थी। ये घड़ियां दिल्ली से बिकने आती थीं। ओमती टीआई एसपीएस बघेल ने बताया कि ईआइपीआर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी सावरिया इंदौर निवासी मयंक शर्मा ने नकली घड़ियों को लेकर

एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से शिकायत की थी। एसपी के निर्देश पर बुधवार देर रात तुलाराम चौक में पर्ल ट्रेडर्स, क्वालिटी वाच और जयमाता दी टाइम्स घड़ी नाम की दुकानों की तलाशी ली गई।



ओमती पुलिस ने की कार्रवाई, तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज।

तीनों दुकानों से 425 ब्रांडेड कंपनी की नकली घड़ी जब्त की

पर्ल ट्रेडर्स दुकान संचालक मुकेश चिमनानी के यहां से फास्ट्रेक कंपनी की हूबहू 237 घड़ियां, क्वालिटी वाच दुकान में संचालक रितेश कुमार सिंघानी के यहां से 114 और जय माता दी टाइम्स घड़ी दुकान के संचालक सुरेश जय सिंघानी के यहां से 74 नकली घड़ी जब्त की गई। आरोपियों के यहां से जब्त घड़ियों की कुल कीमत तीन लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। आरोपित नकली घड़ी 700 से 1000 रुपए के बीच में ग्राहकों को बेच रहे थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ कॉपराइट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच में लिया है।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/mp/jabalpur/news/were-selling-fake-watches-of-famous-company-jabalpur-police-seized-425-branded-name-fake-watches-from-three-shops-fir-in-omati-128931042.html>